

Maintain Social Distancing

Work from home and avoid meetings, classes, tutorials, workshops, etc., as far as possible

Together we can fight COVID-19!





For further information:

Call the State helpline numbers or Ministry of Health and Family Welfare, Government of India's 24x7 helpline numbers **1075** (Toll Free) or **011-23978046**

Email at **ncov2019@gov.in** , **ncov2019@gmail.com**



THE POWER OF SOCIAL DISTANCING





कोरोना बहुत ही
स्वाभिमानी और
आत्मसम्मान से भरा
हुआ वायरस है ।
वो तब तक आपके घर
नहीं आएगा जब तक
आप उसे लेने खुद
बाहर नहीं निकलते ।
घर पर ही रहे । उसे
लेने बाहर न जाए।

हैण्ड वॉश कैसे करें

हमेशा बहते पानी में
साबुन से हाथ धोयें



SUMANK

S सीधा



U उल्टा



M मुठ्ठी



A अंगूठा



N नाखून



K कलाई





MYTH BUSTERS COVID-19



COVID-19 spread through consumption of chicken, eggs and meat



There is no conclusive evidence that cooked food transmits the disease

COVID-19 spread through pets



The transmission of disease has not been seen through pets

Dead body of a person infected with Corona Virus transmit the infection



No transmission of Corona Virus infection from the dead body of the person

Vaccines are available for treatment of COVID-19 infection



As of now, there is no vaccine available for the treatment of Covid-19 infection

STAY HOME | STAY SAFE



#StayHome
[StayHomeSaveLives.us](https://www.StayHomeSaveLives.us)



**STAY
HOME
SAVE
LIVES**



[/didyouknowpage1](#) [@didyouknowpage](#)

CORONAVIRUS EXPLAINED EASILY :

- Kate **got infected** yesterday, but she **won't know** until 14 days later.
- Kate **thinks** she's healthy and is **infecting 10 people** per day.
- These 10 people **think they are ok**, they travel, **go out** and infect 100 people.
- These **100 people think** they are **healthy** and keep infecting 1000 people.
- No one knows who is **ok** or who **can infect you**.

Do you understand why is important to **stay at home?**

Be responsible, Stay in quarantine.



Let us Together Fight the Coronavirus (COVID-19)



- Avoid places with large gatherings
- Clean your hands with an alcohol-based hand rub or wash them with soap and water
- Maintain social distancing
- Avoid travel as much as possible
- Avoid touching eyes, nose and mouth
- Cover your mouth and nose with your bent elbow or tissue when you cough or sneeze.
- If you have fever, cough and difficulty breathing, seek medical care early
- Avoid spreading rumours through social media apps



PREVENTION



**WASH YOUR
HANDS OFTEN**



**WEAR A
FACE MASK**



**AVOID CONTACT
WITH SICK PEOPLE**



**ALWAYS COVER YOUR
COUGH OR SNEEZ**